



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

29 फाल्गुन 1940 (श10)  
(सं० पटना 461) पटना, बुधवार, 20 मार्च 2019

---

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद्

अधिसूचना

3 नवम्बर 2018

सं० 1031—श्री विषहरी भगवती मंदिर, ग्राम एवं पोस्ट—मैना, थाना—सोनवर्षा, जिला—सहरसा पर्षद के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन संख्या—1724 है।

न्यास के सुचारु प्रबंधन, सुव्यवस्था एवं भगवती के राग—भोग हेतु ग्यारह सदस्यीय न्यास समिति का गठन वर्ष 1998 में किया गया था, जिसमें से अधिकांश सदस्यों के देहान्त हो जाने एवं न्यास समिति के उपाध्यक्ष श्री राम चरित्र यादव द्वारा त्याग—पत्र दे दिये जाने के कारण न्यास की देख—रेख उचित रूप से नहीं हो रहा था। ग्रामीण जनता द्वारा आयोजित आम—सभा में इस न्यास के देख—रेख हेतु दिनांक 23.09.2017 को श्री प्रभुराम की अध्यक्षता में नवीन न्यास समिति गठन हेतु 14 सदस्यों को चयनित कर एक सूची पर्षद को भेजी गयी। पर्षद द्वारा यह आपत्ति करने पर कि अधिनियम की धारा 29 के तहत अधिकतम 11 सदस्यों की न्यास समिति ही बनायी जा सकती है, पुनः एक बैठक श्री सुधीर कुमार की अध्यक्षता में दिनांक 27.01.2018 को आयोजित कर ग्यारह नामों की सूची पुनः सहमति के साथ बैठक में पास कर पर्षद को भेजी गयी, जिसमें प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सोनवर्षा को पदेन अध्यक्ष के रूप में दर्शित किया गया।

उक्त समिति पर निर्णय लेने के पूर्व, न्यास समिति के दस सदस्यों को निबंधित डाक द्वारा दिनांक 16.01.2018 को नोटिस भेजी गयी थी और इस नोटिस की प्रतिलिपि प्रखंड विकास पदाधिकारी, सोनवर्षा को सूचनार्थ दी गयी थी। उक्त नोटिस में से श्री राम चरित्र यादव वो श्री विनोद कुमार सिंह उर्फ पप्पुजी को छोड़कर आठ नोटिस पता गलत होने के कारण डाक विभाग द्वारा वापस कर दिया गया। पुनः दिनांक 28.03.2018 को उक्त आठ सदस्यों को निबंधित डाक से नोटिस दी गयी। उक्त निबंधित डाक में श्री फुलेश्वर ठाकुर, श्री राजेन्द्र पासवान एवं श्री कनकीर यादव का पत्र डाक विभाग द्वारा उनके देहान्त की रिपोर्ट के साथ पर्षद को वापस कर दिया गया। शेष सदस्यों द्वारा न तो कोई जबाब दिया गया और न ही वे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए। अतः ऐसी स्थिति में पर्षद यह पाती है कि पूर्व न्यास समिति के अधिकांश सदस्यों की मृत्यु हो गयी है और जीवित सदस्यों को पर्याप्त जानकारी प्राप्त हो चुकी है। श्री राम चरित्र यादव ने अपना त्याग—पत्र दे दिया है और दो सदस्य श्री चन्द्रदेव यादव वो श्री विनोद कुमार सिंह उर्फ पप्पु कुमार सिंह का नाम नवीन न्यास समिति में भी प्रस्तावित है तथा इनके द्वारा भी कोई आपत्ति नहीं दी गयी है। ऐसी परिस्थिति में पर्षद न्यास के देख—भाल एवं सुप्रबंधन की दृष्टि में पुराने समिति को भंग करने का निर्णय लेती है तथा नयी समिति जो आम—सभा द्वारा दिनांक 23.09.2017 एवं 27.01.2018 द्वारा प्राप्त हुआ है, के सदस्यों का चरित्र

सत्यापन भी संबंधित थाना-सोनवर्षा राज द्वारा दिनांक 11.04.2018 को हो चुका है। उक्त सदस्यों के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है।

अतः न्यास के सुचारु प्रबंधन एवं सुव्यवस्था हेतु प्रखंड विकास प्रदाधिकारी, सोनवर्षा, सहरसा की अध्यक्षता में कुल ग्यारह व्यक्तियों की न्यास समिति के गठन का निर्णय लिया गया है।

अतएव मैं अखिलेश कुमार जैन बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा 32 में धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार, जो बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम की धारा 81 (1) (ख) एवं 8 (क) के तहत प्रशासक को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए श्री विषहरी भगवती मंदिर, ग्राम वो पोस्ट-मैना, थाना-सोनवर्षा राज, जिला-सहरसा की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा, संरक्षण, सुचारु प्रबंधन तथा सम्यक् विकास हेतु नीचे लिखे योजना का निरूपण तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए एक न्यास समिति का गठन किया जाता है।

#### योजना

1. अधिनियम की धारा 32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम **“श्री विषहरी भगवती मंदिर, मैना, सहरसा न्यास योजना”** होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम **“श्री विषहरी भगवती मंदिर न्यास समिति मैना, सहरसा”** होगा।
2. श्री विषहरी भगवती मंदिर, ग्राम वो पोस्ट-मैना, थाना-सोनवर्षा राज, जिला-सहरसा तथा इसकी समस्त चल-अचल सम्पत्ति तथा आय के प्रबंधन, संचालन एवं प्रशासन का अधिकार श्री विषहरी भगवती मंदिर न्यास समिति, ग्राम वो पोस्ट-मैना, थाना-सोनवर्षा राज, जिला-सहरसा में निहित होगा।
3. न्यास समिति न्यास हित में प्रशासनिक एवं राजस्व सम्बंधी सभी कार्य करेगी।
4. इस न्यास समिति का प्रमुख दायित्व मन्दिर में परम्परागत पूजा-अर्चना, राग-भोग, उत्सव-समैया आदि समस्त धार्मिक आचारों का सम्यक् प्रबंधन सुनिश्चित करना होगा।
5. न्यास की समग्र आय समीप के किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में रखी जायेगी और बैंक खाता का संचालन समिति के सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त के हस्ताक्षर से होगा।
6. मन्दिर में प्राप्त होने वाले सभी चन्दा, चढ़ावा एवं मांगलिक/धार्मिक आयोजनों के लिए निर्धारित राशि के लिए दाताओं को उचित पावती रसीद दी जायेगी और उसका सम्यक् लेखा संधारण विहित प्रपत्र में किया जायेगा तथा आय-व्यय का विवरणी बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद को त्रैमासिक/छः मासिक/नौ मासिक/वार्षिक अगामी माह के प्रथम सप्ताह में भेज दिया करेंगे।
7. न्यास समिति के आय-व्यय में शुचिता एवं पारदर्शिता रखेगी।
8. मन्दिर में आने वाल आस्थावान भक्तों के साथ किसी प्रकार का भेद-भाव नहीं किया जायेगा। विशेष अवसरों पर भक्तों की सुविधा एवं सुरक्षा का ख्याल रखा जायेगा।
9. मन्दिर परिसर में दानपात्र रखे जायेंगे जो प्रत्येक माह एक निर्धारित तिथि को न्यास समिति के सदस्यों के समक्ष खोली जायेगी और गणना कर सत्यापित पंजी में प्रविष्टि के बाद बैंक खाता में जमा की जायेगी।
10. न्यास समिति न्यास परिसर को स्वच्छ एवं अतिक्रमण मुक्त रखेगी।
11. न्यास समिति बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम एवं उप विधि में वर्णित सभी प्रावधानों का सम्यक् अनुपालन सुनिश्चित करेगी तथा वार्षिक आय-व्यय का विवरण, बजट, देय शुल्क की राशि एवं बैठकों की कार्यवृत्त पर्षद को ससमय भेजेगी।
12. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक बुलायेंगे। जिसकी अध्यक्षता अध्यक्ष करेंगे। अध्यक्ष की अनुपलब्धता में वरीय सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सचिव समिति द्वारा पारित प्रस्तावों/निर्णयों को मूर्तरूप देने के लिए उत्तरदायी होंगे और कोषाध्यक्ष लेखा की सम्यक् संधारण के लिए जिम्मेवार होंगे।
13. न्यास समिति की बैठक मन्दिर परिसर में प्रत्येक माह होगी।
14. इस योजना में परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा संशोधन का अधिकार पर्षद में निहित होगा।
15. न्यास समिति के कोई सदस्य यदि मन्दिर की सम्पत्ति से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से लाभान्वित होंगे अथवा आपराधिक पृष्ठभूमि के होंगे तो सदस्य बने रहने की उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी।
16. न्यास समिति को न्यास की कोई सम्पत्ति बेचने, लीज पर देने या किसी प्रकार से दुरुपयोग का अधिकार नहीं होगा।
17. न्यास समिति न्यास की अतिक्रमित भूमि को मुक्त कराने हेतु आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करेगी।

उपर्युक्त योजना को मूर्त रूप देने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की न्यास समिति गठित की जाती है :-

1. प्रखंड विकास पदाधिकारी, सोनवर्षा, जिला-सहरसा — पदेन अध्यक्ष,
2. श्री सुधीर कुमार यादव, पे0 जगदीश प्रसाद यादव,  
ग्राम वो पोस्ट-मैना, थाना-सोनवर्षा, जिला-सहरसा — उपाध्यक्ष,
3. श्री हिमांशु कुमार वर्मा, पे0-स्व0 भरत ना0 लालग्राम वो पोस्ट-मैना,  
थाना-सोनवर्षा, जिला-सहरसा — सचिव,
4. श्री चन्द्रदेव यादव, पे0-स्व0 शिवनाथ यादव,  
ग्राम वो पोस्ट-मैना, थाना-सोनवर्षा, जिला-सहरसा — कोषाध्यक्ष,
5. श्री पप्पु कुमार सिंह, पे0-योगेन्द्र ना0 सिंह,  
ग्राम वो पोस्ट-देहद, थाना-सोनवर्षा, जिला-सहरसा — सदस्य
6. श्री पंकज कुमार साह, पे0-स्व0 रामानन्द साह,  
ग्राम वो पोस्ट-मैना, थाना-सोनवर्षा, जिला-सहरसा — सदस्य
7. श्री वीरन मुखिया, पे0-लक्ष्मी मुखिया,  
ग्राम वो पोस्ट-मैना, थाना-सोनवर्षा, जिला-सहरसा — सदस्य
8. श्री उमेश ठाकुर, पे0-स्व0 फुलेश्वर ठाकुर,  
ग्राम वो पोस्ट-मैना, थाना-सोनवर्षा, जिला-सहरसा — सदस्य
9. श्री अजय यादव, पे0-स्व0 प्रवेश यादव,  
ग्राम वो पोस्ट-मैना, थाना-सोनवर्षा, जिला-सहरसा — सदस्य
10. श्री महेन्द्र पासवान, पे0-असर्फी पासवान,  
ग्राम वो पोस्ट-मैना, थाना-सोनवर्षा, जिला-सहरसा — सदस्य
11. श्री घनश्याम यादव, पे0-स्व0 जगदीश यादव,  
ग्राम वो पोस्ट-मैना, थाना-सोनवर्षा, जिला-सहरसा — सदस्य

यह अधिसूचना निर्गत तिथि से प्रभावी होगी और इसका कार्यकाल 05 (पाँच) वर्षों का होगा।

आदेश से,  
अखिलेश कुमार जैन,  
प्रशासक।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 461-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>